



28 जून, 2021 से ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में बदलाव

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 जून, 2021) – यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा ट्रांज़िट सिस्टम, लोगों को सिटी में अच्छी तरह से गतिशील रख सकता है, सेवा में सुधार करने के लिए, 28 जून, 2021 से शुरू करते हुए, अगले नोटिस तक, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) के निम्नलिखित रूट शेड्यूल्स में बदलाव किया जाएगा:

- **17 होडन (17 Howden):** कार्यदिवस वाले शेड्यूल्स में बदलाव किया गया है
- **23 सैंडलवुड (23 Sandalwood):** कार्यदिवस, शनिवार और रविवार वाले शेड्यूल्स में बदलाव किया गया है और इस रूट पर नई इलेक्ट्रिक बसें (NEW Electric Buses) पेश की जाएंगी।
- **115 पियर्सन एयरपोर्ट एक्सप्रेस (115 Pearson Airport Express):** कार्यदिवस, शनिवार और रविवार वाले शेड्यूल्स में बदलाव किया गया है
- **200-217 आई-राइड (200-217 i-Ride) स्कूल रूट्स** और 4/4A, 7/7A, 9, 21, 32 और 57 पर स्कूल की अतिरिक्त ट्रिप्स रद्द कर दी गई हैं।

कृपया ट्रेवल करने से पहले रूट शेड्यूल देखें। ब्रैमली (Bramalea), ब्रैम्पटन गेटवे (Brampton Gateway) और डाउनटाउन (Downtown) टर्मिनल्स में टर्मिनल की बिल्डिंग का समय, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक है। ट्रिनिटी कॉमन (Trinity Common) टर्मिनल बंद रहेगा। टर्मिनल्स पर ग्राहक सेवा (Customer Service) घंटों के बारे में जानने के लिए, www.bramptontransit.com पर जाएं।

सीनियर आई.डी. (Senior ID) नवीकरण आवेदन, ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। bramptontransit.com पर जाएं और किराए (Fares) भाग पर जाकर, नवीकरण आवेदन फार्म पूरा करें। आपका सीनियर आई.डी. कार्ड आपको डाक से भेज दिया जाएगा।

हमारी कम्युनिटी को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी के लिए भूमिका निभाना जरूरी है। कृपया याद रखें:

- टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर होने के समय मास्क पहनना जरूरी है। मास्क अच्छी तरह फिट होने चाहिए और जरूरी है कि आपका नाक, मुंह और ठोड़ी हमेशा ढकी हुई हो।
- टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर, मास्क पहनकर भी, शारीरिक दूरी कायम रखें।
- सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।
- यदि आप बीमार हैं, तो कृपया ट्रांज़िट पर सफर करने से परहेज करें, नजदीकी कोविड (COVID-19) एसेसमेंट साइट में टेस्ट करवाएं और पब्लिक हेल्थ के निर्देशों का पालन करें।

कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़



किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से, सवारियों को याद दिलाया जाता है कि बसों पर और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल मास्क आवश्यक हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है।

नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए bramptontransit.com पर जाएं अथवा Twitter पर [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca